



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 14]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 4, 2013/पौष 14, 1934

No. 14]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 4, 2013/PAUSA 14, 1934

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जनवरी, 2013

01/2013-सीमा शुल्क (एसजी)

सा.का.नि. 15(अ).—जहाँ कि, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन् पश्चात् जिसे सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 72 के अंतर्गत वर्गीकृत स्टेनलेस स्टील से विनिर्मित हॉट रोल्ड फ्लैट उत्पाद-304 ग्रेड के आयात का संबंध है, महानिदेशक (रक्षोपाय) ने अपने प्राथमिक निष्कर्ष, जिसे सा.का.नि. 714 (अ), दिनांक 24 सितम्बर, 2012 और उसके पश्चात् शुद्धिपत्र, सा.का.नि. 825 (अ), दिनांक 12 नवंबर, 2012 और शुद्धिपत्र-2, सा.का.नि. 841 (अ), दिनांक 23 नवंबर, 2012 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, में इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि स्टेनलेस स्टील से विनिर्मित हॉट रोल्ड फ्लैट उत्पादों-304 ग्रेड (जिनकी अधिकतम चौड़ाई 1605 मिमी. तक है) और जिसमें सभी प्रकार के आस्टेनिटिक ग्रेड, जिनमें निकेल का अवयव 6 प्रतिशत तथा अनिवार्यतः क्रोमियम निहित होता है, चाहे इसमें मोलिब्डेनम, टीटेनियम आदि जैसे अन्य धात्विक तत्व शामिल हों या नहीं, (एतश्मिन् पश्चात् जिसे विषयगत माल से संदर्भित किया गया है) जो सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, के उप-शीर्ष-72191111, 72191112, 72191190, 72191200, 72191300, 72191400, 72192111, 72192112, 72192121, 72192122, 72192131, 72192132, 72192141, 72192142, 72192190, 72192211, 72192212, 72192219, 72192291, 72192292, 72192299, 72192310, 72192320, 72192390, 72192411,

72192412, 72192413, 72192419, 72192421, 72192422, 72192423, 72192429, 72192490, 72201110, 72201121, 72201122, 72201129, 72201190, 72201210, 72201221, 72201222, 72201229, 72201290 के अंतर्गत आते हैं, का भारत में आयात अत्यधिक हो जाने के कारण हमारे घरेलू उद्योग, जिसमें विषयगत माल के उत्पादक भी आते हैं, के बाजार में व्यवधान पैदा हो गया है या व्यवधान का खतरा उत्पन्न हो गया है जिसके कारण चीन जनवादी गणतंत्र से भारत में हो रहे विषयगत माल के आयात पर अन्तिम रक्षोपाय शुल्क लगाना अनिवार्य हो गया है;

अतः अब सीमा शुल्क टैरिफ (पारगमन उत्पाद विशिष्ट रक्षोपाय शुल्क) नियमावली, 2002 के नियम 10 और 14 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 8ग की उप-धारा (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार महानिदेशक (रक्षोपाय) के उक्त निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात् एतद्वारा, स्टेनलेस स्टील से विनिर्मित हॉट रोल्ड फ्लैट उत्पादों-304 जिनकी अधिकतम चौड़ाई 1605 मिमी. तक है) और जिसमें सभी प्रकार के आस्टेनिटिक ग्रेड, ग्रेड जिनमें निकेल का अवयव 6 प्रतिशत तथा अनिवार्यतः क्रोमियम निहित होता है, चाहे इसमें मोलिब्डेनम, टीटेनियम आदि जैसे अन्य धात्विक तत्व शामिल हों या नहीं, तथा जो सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद-72191111, 72191112, 72191190, 72191200, 72191300, 72191400, 72192111, 72192112, 72192121, 72192122, 72192131, 72192132, 72192141, 72192142, 72192190, 72192211, 72192212, 72192219, 72192291, 72192292, 72192299, 72192310, 72192320, 72192390, 72192411, 72192412, 72192413, 72192419, 72192421, 72192422, 72192423, 72192429, 72192490, 72201110, 72201121, 72201122, 72201129, 72201190, 72201210, 72201221, 72201222, 72201229, 72201290 के अंतर्गत आते हैं, पर, जब उनका आयात चीन

जनवादी गणतंत्र से भारत में हो रहा हो, 20 प्रतिशत, मूल्यानुसार, की दर से अनंतिम रक्षोपाय शुल्क लगाती है।

2. इस अधिसूचना के अंतर्गत लगाया गया रक्षोपाय शुल्क सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 200 दिनों की अवधि तक (यदि इसके पहले इसको वापस नहीं ले लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं कर लिया जाता है, इसमें संशोधन नहीं कर दिया जाता है तो) लागू रहेगा।

[फा. सं. 354/158/2012-टीआरयू-भाग-1]

अक्षय जोशी, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th January, 2013

01/2013-Customs (SG)

G.S.R. 15(E).—Whereas, in the matter of import of Hot Rolled Flat Products of Stainless Steel-304 grade classified within Chapter 72 of the First Schedule, to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), the Director General (Safeguard), in its preliminary findings published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 714 (E), dated the 24th September, 2012 and subsequent Corrigendum vide G.S.R. 825 (E) dated 12th November, 2012 and Corrigendum-2 vide G.S.R. 841 (E) dated 23rd November, 2012 had come to the conclusion that increased imports of Hot Rolled Flat Products of Stainless Steel-304 grade (upto a maximum width of 1605 mm) and encompassing all austenitic grades having minimum Nickel (Ni) content of 6 per cent, compulsorily containing Chromium with or without the presence of other alloying elements like Molybdenum, Titanium etc., (hereinafter referred to as the subject goods) falling under sub-headings 72191111, 72191112, 72191190, 72191200, 72191300, 72191400, 72192111, 72192112, 72192121, 72192122, 72192131, 72192132, 72192141, 72192142, 72192190, 72192211, 72192212, 72192219, 72192291, 72192292, 72192299, 72192310, 72192320, 72192390, 72192411, 72192412, 72192413, 72192419, 72192421, 72192422, 72192423, 72192429, 72192490, 72201110, 72201121, 72201122, 72201129, 72201190, 72201210, 72201221, 72201222, 72201229, 72201290 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, when imported into India, from the People's Republic of China, a provisional safeguard duty at the rate of 20 per cent ad-valorem.

72192421, 72192422, 72192423, 72192429, 72192490, 72201110, 72201121, 72201122, 72201129, 72201190, 72201210, 72201221, 72201222, 72201229, 72201290 of the Customs Tariff Act, into India had caused and threatened to cause market disruption to the domestic industry comprising producers of the subject goods thereby necessitating the imposition of provisional safeguard duty on imports of the subject goods from the Peoples Republic of China into India;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 8C of the said Act, read with rules 10 and 14 of the Customs Tariff (Transitional Product Specific Safeguard Duty) Rules, 2002, the Central Government after considering the said findings of the Director General (Safeguard), hereby imposes on Hot Rolled Flat Products of Stainless Steel-304 grade (upto a maximum width of 1605 mm), and encompassing all austenitic grades having minimum Nickel (Ni) content of 6 per cent., compulsorily containing Chromium with or without the presence of other alloying elements like Molybdenum, Titanium etc., falling under tariff items 72191111, 72191112, 72191190, 72191200, 72191300, 72191400, 72192111, 72192112, 72192121, 72192122, 72192131, 72192132, 72192141, 72192142, 72192190, 72192211, 72192212, 72192219, 72192291, 72192292, 72192299, 72192310, 72192320, 72192390, 72192411, 72192412, 72192413, 72192419, 72192421, 72192422, 72192423, 72192429, 72192490, 72201110, 72201121, 72201122, 72201129, 72201190, 72201210, 72201221, 72201222, 72201229, 72201290 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, when imported into India, from the People's Republic of China, a provisional safeguard duty at the rate of 20 per cent ad-valorem.

2. The safeguard duty imposed under this notification shall be effective for a period of 200 days (unless revoked, superseded or amended earlier) from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[F. No. 354/158/2012-TRU-Part I]

AKSHAY JOSHI, Under Secy.